



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

9 अक्टूबर, 2020

संख्या 41

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019			घट – बढ़	
	2020				
	4 अक्टूबर	25 सितंबर	2 अक्टूबर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2179813	2656489	2653578	-2911	473765
1.1 संचलन में नोट	2179802	2656476	2653562	-2914	473760
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	13	16	3	5
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	553864	429915	455586	25671	-98278
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4433	5213	5382	169	949
2.6 अन्य बैंक	34057	28482	29086	604	-4971
2.7 अन्य	317347	847818	842755	-5063	525408
3 अन्य देयताएं	1088182	1383243	1379007	-4236	290825
कुल देयताएं / आस्तियां	4177839	5351302	5365537	14235	1187698
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2901321	3709794	3709063	-731	807742
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	192788	264971	266852	1881	74064
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	991958	1185063	1201155	16092	209197
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	46529	—	—	—	-46529
4.2 राज्य सरकारें	7886	10516	13169	2653	5283
4.3 नाबार्ड	—	25286	25142	-144	25142
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	25325	121495	119525	-1970	94200
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	35	—	-35	—
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	5971	28066	23912	-4154	17941
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खज़ाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	1964	1964	1964	0	—
7 अन्य आस्तियां	4097	4112	4755	643	658

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	2 अक्टूबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	3990840	545638	1272	3618	388685	67831	885023	107805
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3679213	503046	-577	3104	345398	60833	801941	97435
1.2 स्वर्ण	266852	36486	1880	486	36325	5908	74063	9308
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10794	1476	-42	4	-7	43	658	47
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	33982	4631	11	23	6969	1048	8361	1016

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

9 अक्टूबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹432490 करोड़	2020													
	26 सितंबर	27 सितंबर	28 सितंबर	29 सितंबर	30 सितंबर	1 अक्टूबर	2 अक्टूबर	3 अक्टूबर	4 अक्टूबर	5 अक्टूबर	6 अक्टूबर	7 अक्टूबर	8 अक्टूबर	9 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	427531	427107	435238	433322	446606	456170	455586							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	98.9	98.8	100.6	100.2	103.3	105.5	105.3							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	25 सितंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	215264	-3974	10902	-19084	39090	27535
1.2 बैंकों से उधार	45303	-2599	-16296	-18699	-12977	-17860
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15802	-43	-3362	-362	449	4024
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14263674	15632	332689	696182	1106605	1357214
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	2.6	5.1	9.4	10.5
2.1.1 मांग	1576473	59988	-102402	-40530	99298	167587
2.1.2 मीयादी	12687202	-44357	435091	736713	1007307	1189626
2.2 उधारियां	256217	-2340	-37225	-53222	-33998	-84812
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	550983	2529	-11235	-52693	29866	18571
3 रिज़र्व बैंक से उधार	121495	-117522	-133210	-164128	-132138	74017
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	517456	-3140	-21161	-105990	41790	-101967
4.1 उपलब्ध नकदी	87541	1532	12104	281	14475	561
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	429915	-4672	-33265	-106271	27315	-102527
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	152987	3042	14194	-2414	48789	-84255
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11399	-434	-11826	-8874	-11981	-9027
5.3 बैंकों को अग्रिम	21374	-3534	-4050	-9158	-13199	-4211
5.4 अन्य आस्तियां	32214	-1974	-7722	-21818	10215	-2942
6 निवेश	4439138	37439	311697	691788	244767	746384
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	9.2	18.5	7.1	20.2
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4437509	37835	310378	698813	243076	748130
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1629	-396	1319	-7024	1691	-1745
7 बैंक ऋण	10271857	44210	-2869	-99004	787190	503003
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	-0.0	-1.0	8.8	5.1
7 क.1 खाद्य ऋण	66427	2573	18475	14663	12422	6342
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10205430	41638	-21344	-113666	774768	496662
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10111153	43014	38557	-38356	806060	550602
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	20270	509	-1871	-5387	4089	-4082
7 ख.3 भुनाए गए	94173	-1512	-31936	-51510	-15420	-32187
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	18356	1578	-344	-2101	-1324	-5887
7 ख.5 भुनाए गए	27904	622	-7274	-1649	-6217	-5443

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	4 अक्टूबर	4 सितंबर	11 सितंबर	18 सितंबर	25 सितंबर	2 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.65	..	3.63	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	71.78	..	72.01	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	-21.04	..	-14.22	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	30.89	..	31.12	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	96.15	..	99.37	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिक्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.80/8.20	6.65/7.15	6.65/7.15	6.65/7.15	6.65/7.15	6.65/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/7.00	5.00/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)	5.26	3.42	3.40	3.41	3.41	3.41
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.32	3.19	3.23	3.32	3.36	3.36
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.44	3.46	3.52	3.55	3.58	3.58
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.53	3.57	3.63	3.69	3.73	3.73
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.47	5.95	6.06	6.03	6.06	6.02
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	70.87	73.34	73.47	73.30	73.73	73.38
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.78	86.85	86.97	86.88	86.04	86.22
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	4.40	3.68	3.76	3.85	3.74	3.68
3-माह	3.87	3.76	3.95	3.96	3.80	3.82
6-माह	4.18	3.83	4.04	4.04	3.91	3.98

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीकी/यूरोल भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	25 सितंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17741065	1945	0.0	382101	2.5	941101	5.6	1391260	9.6	1926897	12.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2585272	-14968	-0.6	36989	1.8	235524	10.0	246262	13.4	496074	23.7
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1697323	59117	3.6	-101285	-6.2	-40370	-2.3	102037	7.2	172096	11.3
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13415649	-42962	-0.3	446158	3.8	741633	5.9	1036560	9.3	1247887	10.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42822	758	1.8	239	0.8	4314	11.2	6400	25.0	10841	33.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4906583	5518363	-99626	-1.8	448645	10.2	611780	12.5	535135	12.4	681228	14.1
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	836430	-140569		134938		-155762		289895		-100459	
2.1.2 अन्य बैंक	3914391	4681933	40943	0.9	313707	8.7	767542	19.6	245240	6.7	781687	20.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10934182	43948	0.4	-3773	0.0	-104462	-0.9	807049	8.4	555236	5.3
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	14740	896		-7260		1574		-1025		6637	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	10919442	43052	0.4	3487	0.0	-106036	-1.0	808074	8.5	548599	5.3
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4196203	20762	0.5	195195	6.4	395166	10.4	235022	7.8	930167	28.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26451	-	-	137	0.5	103	0.4	327	1.3	427	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	2972648	2934134	-36862	-1.2	258103	10.6	-38514	-1.3	186273	7.4	240161	8.9
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	1378342	1384384	-24215	-1.7	7143	0.7	6042	0.4	-61157	-5.4	318446	29.9

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	2 अक्टूबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3214527	25169	0.8	62669	2.3	184821	6.1	355149	14.3	381377	13.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2680013	-2914	-0.1	69077	3.2	232701	9.5	269505	13.9	474166	21.5
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	490054	26444	5.7	-9615	-1.6	-53834	-9.9	76000	14.7	-102300	-17.3
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	44461	1639	3.8	3207	10.1	5953	15.5	9643	38.1	9512	27.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	947103	110673		245030		-45089		329047		-99878	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	933976	108020		238664		-55765		327598		-105161	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-365992	-91285		-397203		-165099		-208613		-121640	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-380786	-91339		-389770		-166727		-207886		-128504	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3986639	1070	0.0	245313	8.6	396236	11.0	159822	5.4	892739	28.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26451			158	0.6	103	0.4	348	1.4	406	1.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	1378342	1379673	-4711	-0.3	30629	2.9	1331	0.1	-74544	-6.4	290249	26.6

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
28 सितंबर 2020	-	425051	-	-	9	15	-	-	2475	-	-	-	-	-422552
29 सितंबर 2020	-	454917	-	-	1249	-	-	-	2800	-	-	-	20	-450848
30 सितंबर 2020	-	486320	-	-	0	-	-	-	3620	-	-	-	551	-482149
1 अक्टूबर 2020	-	524913	-	-	40	-225	-	-	4550	-	-	-	-	-520548
2 अक्टूबर 2020	-	540	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-522
3 अक्टूबर 2020	-	36242	-	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-35752
4 अक्टूबर 2020	-	662	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-658

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं।

**1 जुलाई 2020 के भा.रि.बैं. अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जुलाई	अगस्त	जुलाई	अगस्त	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	144.2	145.0	153.9	154.7	0.5	4.1	6.7
1.1 ग्रामीण	144.9	145.7	154.7	155.4	0.5	3.7	6.7
1.2 शहरी	143.3	144.2	152.9	154.0	0.7	4.5	6.8
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)	319.0	320.0	336.0	338.0	0.6	3.7	5.6
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	121.5	120.6	121.7	0.9	1.1	0.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	142.8	144.0	143.7	146.3	1.8	6.5	1.6
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	101.2	90.7	91.4	0.8	- 8.1	- 9.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	118.0	117.8	118.6	119.3	0.6	0.6	1.3

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
28 अगस्त 2020	90410	3502	3.44 - 6.37
11 सितंबर 2020	87710	618	4.07 - 4.40

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
15 सितंबर 2020	418271	106924	3.10 - 8.87
30 सितंबर 2020	362310	86727	3.32 - 11.86

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	4 अक्टूबर 2019	25 सितंबर 2020	2 अक्टूबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	20121	20575	16084
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	7742	1239	6550
3 सीबीएलओ#	317322	310900	358058
4 बाजार रेपो	236125	309908	413981
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	251	4666	2525

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

2 अक्टूबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	9530	24382	49395	209541
182-दिवसीय	169429	61973	4323	354620
364-दिवसीय	133627	123522	16502	396506
सीएमबी				

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (2 अक्टूबर 2020 तक)	2019 - 20 (4 अक्टूबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (2 अक्टूबर 2020 तक)	2019 - 20 (4 अक्टूबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	766000	442000	710000	635428	340972	473972
2. राज्य सरकारें	353596	225445	634521	298089	155547	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।